

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 07, 2018/भाद्र 16, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 610
No. 181]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 07, 2018/BHADRA 16, 1940	[N.C.T.D. No. 610

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(जी.एस.टी.-नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 06 सितम्बर, 2018

सं. फा. 02(93)/पॉलिसी-जीएसटी/2018/559-68.—आयुक्त, दिल्ली माल एवं सेवाकर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग IV, सं0फा0 02(92)/पॉलिसी-जीएसटी/2018/509-18 तारीख 31 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग की अधिसूचना सं0 34/2018-राज्य कर, तारीख 31 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जुलाई, 2018 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर 3ब में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में, 24 अगस्त, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।”

3. यह अधिसूचना अगस्त 21, 2018 से लागू मानी जाएगी।

एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, जीएसटी (राज्य कर)

**DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
(GST-POLICY BRANCH)**

NOTIFICATION

Delhi, the 06th September, 2018

No. F.2(93)/Policy-GST/2018/559-68.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of NCT of Delhi, in the Department of Trade & Taxes, No.34/2018-State Tax dated the 31st August, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.2(92)/Policy-GST/2018/509-18, dated the 31st August, 2018, namely:-

2. In the first paragraph of the said notification, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the return in **FORM GSTR-3B** for the month of July, 2018 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 24th August, 2018.”

3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 21st day of August, 2018.

H. RAJESH PRASAD, Commissioner, GST (State Tax)